

- Amritsar:** श्री हरमंदिर साहिब के पास करीब 30 घंटे बाद फिर हुआ धमाका, सुबह हुए ब्लास्ट से लोगों में दहशत
- Rajasthan:** हनुमानगढ़ में मिग-21 फाइटर जेट क्रैश; चार ग्रामीणों की मौत, पायलट सुरक्षित
- Delhi:** अजय माकन का बड़ा आटोप, केजरीवाल के बंगले के लिए 45 करोड़ नहीं 171 करोड़ किए गए खर्च
- Karnataka:** बिना मंजूरी के विज्ञापन प्रकाशित नहीं करवा सकेंगे राजनीतिक दल, निर्वाचन आयोग का निर्देश जारी
- Wrestlers Protest:** बजरंग पूनिया ने धरने के बीच कर्नाटक चुनाव को लेकर लगाई स्टोरी, हंगामा होने पर किया डिलीट
- चीन को चुनौती:** पश्चिम एशिया से जुड़ेगी भारत की रेल लाइनें! चाट देशों ने बनाई योजना, डोभाल ने संभाला मोर्चा
- Sonam Kapoor:** किंग चार्ल्स कोरोनोशन कॉन्सर्ट में स्पीच को लेकर ट्रोल हुईं सोनम, लोग बोले- ग्लोबल शर्मिंदगी है

एमपी में सत्ता हथियाने का रास्ता निमाड़ से

शिवराज के तीन दिन आंकारेश्वर दौरे के बाद कांग्रेसियों का डेरा

✪ डिटेक्टिव ग्रुप रिपोर्ट

खंडवा। मध्यप्रदेश की सत्ता हथियाने का रास्ता निमाड़ से होकर गुजरना। यहां भाजपा और कांग्रेस के प्रमुख रणनीतिकारों की नजरें गड़ी हैं। निमाड़ और भुवनापा की 18 सीटों पर कांग्रेस को मजबूती दिख रही है। यहां आदिवासी वोट काफी अधिक हैं। मुख्यमंत्री शिवराजसिंह इस डेमेज कंट्रोल के लिए पसीना बहा रहे हैं। इसका सेंटर पाइंट खंडवा है। तीन दिन आंकारेश्वर में आदि शंकराचार्य की प्रतियोगिता में किनारे में भंग किया। अब कांग्रेसी यहां अड्डा जमाने की रणनीति में हैं।



● इनमें कांग्रेस का रुतबा

निमाड़ की खंडवा, खारगोन, बुधनपुर व बड़वानी के अलावा भुवनापा के इन्द, इमराने जिलों की खंडो पर अलग अलग सर्वेयें सामने आ रही हैं। अदिवासी खंडो सबसे ज्यादा हैं। इन्फ्लिगर शह क्षेत्रों को विमोच्यारी सबसे ज्यादा भाजपा ने खींचे हैं। कांग्रेस ने भी अलग रास्ता को अगे किया है। केवल क्षेत्र भी कांग्रेस के पक्ष में दिख रहा है। ऐसा रात तो इस पट्टी में निमाड़ और भुवनापा की 18 व केवल व आसपास की 4 सीटों पर भाजपा को बड़ा बढ़ा सहना पड़ सकता है। डिटेक्टिव तो पहले ही कांग्रेसियन मान जाते हैं।

● लाइलियों पर कांग्रेसी दुलार

यहां वजह है कि कांग्रेस इस केसट से खुल है, लेकिन दम्दार मेलनत भी करना होगा। कर्रंक्सी अकरर अपने ही पर पर कुल्लादी मरने को आसुर दिखाते हैं। कमलनगर ने नारी रक्षा और नारी स्मृति को शिवराज की सल्लाही बहन का तींद्र समझकर काम शुरू कर दिया है। उन्होंने कहा कि इन्फ्लेनें आनको सखलत और समुद्र बनने के संकल्प के साथ हम नारी सखलत योजना ला रहे हैं। नारी सखलत योजना के दिग्ग प्रेरित में संजीवन का काम 9 मई से शरंभ किया जा रहा है। 9 मई को कमलनगर डिटेक्टिव जिले के पर्यटन से परेशानवा नारी सखलत योजना का शुभारंभ करेंगे।

● ये रहा बड़ा तोहफा

सरकार बनने पर प्रदेश की बहन-बेटियों को 1500 रूप्य प्रतिमाह और 500 रूपये में रसई नैस सिंस्टर्ड देने के संकल्प के साथ शुरू की जा रही है। उन्होंने प्रदेश की बहन-बेटियों से अपील करी कि इस योजना के तहत पंजीवन अवश्य करार। इसमें कांग्रेस पर-पर जाहूर एक फॉर्म भरवाएगी। नारी सखलत योजना के नाम से इस फॉर्म में महिलाओं को कुछ जानकारी देनी होगी।

● 9 को खंडवा में जमवट

योजना का शुभारंभ 9 मई को प्रदेश के साथ खंडवा में भी होगा। 9 मई को खंडवा में योजना का शुभारंभ भीकनगांव विधानसभा दुस सौतेली योजना के शुभारंभ के साथ जानकारी भी देगी। प्रातः 11.30 बजे कांग्रेस कार्यालय गांधी भवन खंडवा में प्रस जहाँ करेंगे। उनके तारा प्रदेश कांग्रेस प्ररकषा टीपन सिंह, जिला कांग्रेस प्रभारी कैलाश कुंडर, सह प्रभारी सुभाष शिवरिण, मनोज मरकर, मोहन कान्हेरी सहित कई नेता आरगी। कैलाश कुंडर एवं सुभाष शिवरिण 8 मई को मंडलन स्तर पर बैठक करेंगे।

सावधान! आप भी तो नहीं बन रहे

फर्जी मैट्रिमोनियल वेबसाइट्स का शिकार



मध्य प्रदेश साइबर पुलिस ने कुवैत खुतवा को शादी का ज़ांसा देकर लाखों रुपयों

ऐसे चलता है ठगी का धंधा

किसी पतिव्रत स्त्रीको धुलाना से एक अनपेक्षित रूप में रिश्ता बन सकता है, जो साधारण रूप से शादी का प्रस्ताव देकर लक्ष्मी कापी पैदा होता है। फर्जी मैट्रिमोनियल वेबसाइटों पर साधारण रूप से शादी का प्रस्ताव देकर लक्ष्मी कापी पैदा होता है। फर्जी मैट्रिमोनियल वेबसाइटों पर साधारण रूप से शादी का प्रस्ताव देकर लक्ष्मी कापी पैदा होता है। फर्जी मैट्रिमोनियल वेबसाइटों पर साधारण रूप से शादी का प्रस्ताव देकर लक्ष्मी कापी पैदा होता है।



विवाह के बंधन में बंधने से पहले एक बार तहकीकात ज़रूर करवाएँ

लीजिये डिटेक्टिव की मदद

+91-91110 50101

www.detectivegroup.in

संपादकीय

नए सिरे से हो विचार

सड़क मार्ग के जरिए पाकिस्तान से होने वाली तिजारत बंद है, जो आतंकवादियों तक हथियार और विस्फोटक पहुंचाने का बड़ा माध्यम हुआ करता थी। फिर उन्हें वित्तीय मदद पहुंचाने वालों की पहचान कर सलाखों के पीछे डाला जा चुका है। बाहर से होने वाली हट लेन-देन पर कड़ी नजर है। फिर भी आतंकवादियों तक बाहरी देशों में बने हथियार और दूधरे साजो-सामान पहुंच रहे हैं, तो इस पर नए सिरे से विचार करने की जरूरत है। अखिर तमाम चौकसी और सघन तलाशी अभियान के बावजूद आतंकवादियों तक ऐसे साजो-सामान पहुंच कैसे रहे हैं। सरकार दावा कर रही थी कि जम्मू-कश्मीर का विशेष दर्जा हटाने और लगातार सीमा पर कड़ी निगरानी बनाए रखने की जगह से दहशतगर्दों में काफी कमी आई है। मगर कुछ-कुछ अंतराल पर ऐसी घटनाएं हो जाने से सरकार के दावे खोखले ही साबित हो रहे हैं। इससे यहीं देखाकित हो रहा है कि दहशतगर्दों से निपटने के लिए जैसी तैयारी होनी चाहिए, वैसी अभी तक नहीं हो पाई है। इस दिशा में सच सिरे से रणनीति बनाने की जरूरत है। यह ठीक है कि सख्ती बख्से से दहशतगर्दों की गतिविधियों पर कुछ लगाने लगी है, मगर घाटी में उनकी मौजूदगी कम हुई है, ऐसा बिल्कुल नहीं लगता। हालांकि पिछले आठ-नौ वर्षों में वहां सुरक्षाबलों की तैनाती बढ़ाई गई है, टीना पाट से होने वाली घुसपैठ पर कड़ी नजर रखी जा रही है, सघन तलाशी अभियान के जरिए आतंकवादियों के ठिकानों का पता लगाने में तेजी आई है, मगर हकीकत यही है कि वे अपनी रणनीति लगातार बदलते रहते हैं और सुरक्षाबलों पर मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने में कामयाब हो रहे हैं। कुछ समय पहले उन्होंने कश्मीरी पंडितों और बाहरी लोगों को निशाना बना कर हमले तेज कर दिए थे, अब सेना और सुरक्षाबलों को निशाना बना रहे हैं। जाहिर है, सेना की हट गतिविधि पर उनकी नजर है और वे घात लगा कर अपनी सामिश्रों को अनाम देने में कामयाब हो रहे हैं, जबकि खुफिया तंत्र उनकी निशानेदही में विफल साबित हो रहा है। सबसे बड़ी चिंता की बात है कि इन आतंकवादियों को समर्थन और सहयोग कहां से मिल रहा है। घुसपैठ की दर कम हुई है, हट हफ्ते दहशतगर्दों को मार गिराया जाता है, फिर भी वे उठ खड़े हो रहे हैं, तो जाहिर है, स्थानीय युवाओं को वे हथियार उठाने को तैयार कर पा रहे हैं।

सैर-सपाटा

पर्वत पर बसा है दुनिया का सबसे ऊंचा शिव मंदिर

जागिए तृणनाथ की स्वस्थिति

भा रात में भगवान शिव को समर्पित कई मंदिर हैं। उत्तराखंड के ब्रह्मपारा में तृणनाथ एक ऐक्य मंदिर है, जो तृणनाथ के राजसी पहाड़ों के बीच बसा है। वे दुनिया के सबसे ऊंचे शिव मंदिरों में से एक है। मंदिर 3680 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। यह पंच केंद्रों में से एक है और माना जाता है कि यह लगभग 1000 साल पुराना है। इस मंदिर से जुड़े कई इंटरैक्टिंग फैक्ट्स यह जगह

● तृणनाथ मंदिर से जुड़े इंटरैक्टिंग फैक्ट्स

मंदिर के निर्माण के बारे में कहा जाता है कि इसे जगन्नाथ ने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए समर्पित किया था। इसके अलावा यह भी मान्यता है कि यात्रा पर्वतों ने भी भगवान शिव को पवित्र रूप में प्राप्त करने के लिए यहीं पर परमेश्वर को भी। कहते हैं कि यहाँ बौले के रूप में भगवान शिव के हाथ दिखाई दिए थे, जिसके बाद जंगलों में तृणनाथ मंदिर का निर्माण करवाया था। मंदिर का नाम 'तृण' है, जिसका मतलब हाथ और 'नाथ' भगवान शिव के प्रतीक के रूप में लिया गया है।

कहा है भी जाता है कि राजग ने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए इसे जगह पर



तपस्या की थी। इसके अलावा भगवान राम ने पत्नी से मुक्त करने के बाद खुद को ब्रह्मपारा हत्यार के शाय से प्राप्त करने के लिए उन्होंने इस जगह पर शक्ति की तपस्या की थी।

● कुछ समय के लिए सुलता है मंदिर

ने मंदिर केवल कुछ महीनों के लिए ही खुला है। यह आमतौर पर गर्मियों के महीनों के दौरान खुला रहता है जब तीर्थयात्री मंदिर जाते

हैं। यहाँ अक्सर के अंत तक मंदिर के दरवाजे बंद हो जाते हैं।

● यहाँ कैसे पहुंचें

तृणनाथ में कर्बे रेलवे स्टेशन नहीं है। हालांकि इसके सबसे पास रेलवे स्टेशन 'कॉन्क्रेट' में है, जो तृणनाथ से लगभग 210 किमी दूर है। यहाँ आने कॉन्क्रेट से गांगोत्रार सेक्टर चोखला पहुंचें, फिर लोकल ट्रेन लेकर आने मंदिर पहुंच सकते हैं।

गर्मी की छुट्टियों में बच्चों को घूमने का है प्लान

हेपी ट्रिप के लिए इन बातों का रखें ध्यान

गर्मियों की छुट्टियां शुरू होने वाली हैं और लगभग दो महीने तक पड़ने वाली इन छुट्टियों में छोटे बच्चे घूमने की जिद करते हैं। अगर आपके बच्चे भी घूमने की जिद कर रहे हैं तो आपको ट्रिप पर जाने से पहले कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। अगर आपकी भी फैमली के साथ घूमने जा रहे हैं तो जानिए किन-किन बातों का आपको ध्यान रखना होगा।



सही जगह चुनें

गर्मियों की छुट्टियों के दौरान बच्चों के साथ क्वालिटी टाइम बिताना चाहते हैं तो एक अच्छी जगह का चुनाव करना बेहतर जगहों है। छुट्टियों के दौरान घूमने वाली जगहों पर खूब धीरे-धीरे रहें। ऐसे में घूमने के लिए कम भीड़-भाड़ वाली जगह को चुनें।

पहले से करें बुकिंग

जगह का चुनाव करने के बाद

बुकिंग करें। अगर लंबे समय पर जा रहे हैं तो टिकट की बुकिंग सबसे पहले करें। इसके अलावा होटल की बुकिंग भी करें और घूमने के लिए टैक्सी या कैब पहले से बुक करें।

अच्छे से करें पैकिंग

बच्चों के कपड़े धुने जा रहे हैं तो पैकिंग भी लंबे समय से करें। मौसम के मुताबिक कपड़े खूब और सही से धुना खाना, धारद, सूखे टीकस भी पैक करें। बच्चों

के साथ बहुत जगह पैक बैग न करें, कॉरियर करें कि कम सामान में ही काम पूरा करें।

फर्स्ट एड बॉक्स बनाएं

गर्मियों की छुट्टियों में किसी भी जगह पर जा रहे हैं तो बच्चों की तबियत खराब हो सकती है। इसलिए फर्स्ट एड बॉक्स को ज़रूरत से पैक करें। इसमें सामान्य दवाइयों को रखें। इसके लिए अपने डॉक्टर से सलाह करें।

Highlights

1. He is lying: Rajeev Gandhi on Gehlot's 'she helped save my govt' claim
2. 38-year-old woman rescued from violence - hit Manipur delivers baby
3. Man beaten up for posting positive review of 'The Kerala Story' in Jodhpur: Police
4. Posting of women Territorial Army officers along LoC approved
5. UPSRTC bus on way to Lucknow crashes into tree, passengers injured
6. 8 killed after car crashes into people waiting at bus stop in US

From Go First crisis to highest GST collection: Top five business news of the week

NEW DELHI, (Agency). The ultra-low-cost airline, Go First, filed for voluntary insolvency and cancelled its flights till May 12 while JP Morgan Chase Bank came to the rescue of First Republic, another embattled US financial firm to fail after Silicon Valley Bank (SVB). This and more in our weekly wrap of the top five business stories that made headlines:

Top five business news of the week: Go First crisis and highest ever GST collection in April.

Top five business news of the week: Go First crisis and highest ever GST collection in April.

1. After filing for voluntary insolvency before the National Company Law Tribunal (NCLT) earlier this week, cash-strapped airline Go First on Friday announced the suspension of flights till May 12. The tribunal will also hear two petitions seeking insolvency proceedings against the crisis-hit airline on Monday. The Wadia-group owned air carrier has blamed "faulty" Pratt & Whitney-an American aerospace manufacturer-engines for



the grounding of about half its fleet leading to the bankruptcy filing.

2. The CBI on Friday conducted searches at seven locations including the premises of Jet Airways and its founder Naresh Goyal in Mumbai in connection with an alleged ₹538-crore fraud case in Canara Bank. The CBI searches were spread across the residences and offices of Goyal, his wife Anita, and former airline director Gaurang Ananda Shetty.

3. GST collection grew by 12 per cent in April to ₹1.87 lakh crore, the highest monthly mop-up since the rollout of the indirect tax regime. The gross GST revenue collected in April 2023 is ₹1,87,035 crore of which CGST is ₹38,440 crore, SGST is ₹47,412 crore,

IGST is ₹89,158 crore (including ₹34,972 crore collected on import of goods) and cess is ₹12,025 crore, the finance ministry said in a statement.

4. India's services sector activity, as measured by the Purchasing Managers' Index (PMI), reached a 13-year high of 62 in April, according to data released by the S&P Global on Wednesday, despite rising cost pressures for the beginning month of fiscal 2023-24.

5. US-based First Republic Bank was closed on Monday by the local regulators as it entered into an agreement with JP Morgan Chase Bank to purchase and assume all deposits and assets of the troubled bank in a bid to protect depositors.

Paytm CEO Vijay Shekhar Sharma big promise to shareholders on artificial intelligence; 'like smartphones 10 years ago'

NEW DELHI, (Agency). Paytm founder and CEO Vijay Shekhar Sharma expressed on Sunday that human-level artificial intelligence will open up new avenues of opportunity and improve efficiencies in current businesses. In a note to shareholders following the Q4 results, he claimed that Paytm will be at the forefront of the AI revolution.

Paytm founder Vijay Shekhar Sharma is very



hopeful of AI. (File)

Paytm founder Vijay Shekhar Sharma is very

hopeful of AI. (File)

"I believe that in 2023, with advent of early-

stage AGI (Artificial General Intelligence), we will see more opportunities to bring efficiencies in business and AI-first offerings," said the Paytm chief executive.

He went on to compare artificial intelligence to smartphones. "I see AGI (artificial general intelligence) as something like smartphones 10 years back."

"Next goal is to

become free cashflow positive"

In a message to Paytm's investors, Vijay Shekhar expressed joy that the company has delivered EBDITA (before ESOP) profit. It is profit made by company before subtracting interest, taxes, depreciation, and amortization (EBITDA) and before accounting for the cost of employee stock ownership plans (ESOP).

New Delhi

Manipur

केरल हाउसबोट हादसा: बड़कर 22 हुईं मरने वालों की संख्या, तलाश अभियान जारी

प्रलयमय, एजेन्सी केरल में मलयनम किले के जलम डलकने में भुरललियन समुद्र तट के पसर रीफरकर हाउस बोट दुर्घटना हादसे में मुक्कों की संख्या बढत जा रही है। खबर है कि एक 'हाउसबोट' पसरत से मरलियन और बच्चों समेत 22 लोगों की मौत हो गई। हाउसबोट में 30 से अधिक लोग खबर थे। खेत मंत्री भी आठवूनन में बहाया कि मुक्कों में कई मरलियन और बच्चों शामिल हैं, जो पसरत की सुदृढी के बेटन भूनेने अडर है। इन बीच, प्रधनमंत्री नरेन्द्र मोदी ने घटना में लोगों की मौत पर दुःख जताया और मुक्कों के रीजनरों को



दो-दो लख रुपये की अडरहा खरि देने की घोषणा की है। प्रधनमंत्री कार्यालय द्वारा घोषित की गई है।

गव है, 'केरल के मलयनम में नैका दुर्घटना में लोगों के जान नुक़ने से दुःख है। खेक संलग्न रीफरकर के प्रती संवेदनदार है। प्रलेक

मणिपुर के हालात बदतर, अपने लोगों को निकालने में जुटे राज्य; आसमान छू रहा फ्लाइंग का किराया



मुक्क के रीजनरों को प्रधनमंत्री दुर्घटना खबर से दो लख रुपये की संख्या दे जायगी। 'कोडेर नेला राहुन बांकी भी है हादसे में लोगों की मौत पर शोक जहाया। उनोंने दुर्घट किरा, 'केरल के मलयनम में एक हाउसबोट के दुर्घने की खबरों से व्यथित हैं। अपने रीजनरों को नुक़ने वाले लोगों के प्रति भी भावना के शीघ्र खबरन होने की कसरत करता हूं। मैं कौनसे कारकनाओं से बहाया अभियान में प्राधिकरियों की मदद करने को अपील करता हूं।'

के 240 स्टूडेंट्स को निकाल लिया गया था। अगले कुछ दिनों तक इकसल से दुःखे उन्के को जाने वाली फ्लाइट पूरा तरह बुक हो चुकी है। खरि किराया भी परसरन पसरत कर रहे हैं। जाकगीरी के मुद्दाक इन दिनों इकसल से नोकलकत तक की फ्लाइट का किराया 22 हजार से 30 हजार तक है।

मणिपुर में मारादुर के 22 स्टूडेंट्स की जाकगीरी है। सरकार का पसन है कि फले उन् परलियन कनेके अडरप लकाया जाए और फिर वहां से मारादुर लकाया जाए। मुक्कमंकी एकपस रिद के बहालकी भी तरफ से बहाया गवा कि इकसल में 14 स्टूडेंट्स को रिक्सेन के बहालियन में लिफ्ट कर दिया गवा है। मलयनम में कंसे स्टूडेंट में से नकलकत के होने वाले एक स्टूडेंट ने कहा, 'संते की संख्या और फरि भी नहीं मरलरहा है। वह इकसल परलियन में बोटक करने के लिए पर है।

Paschim bangal

यूपी ATS ने कानपुर में 6 रोहिंग्या समेत 8 को किया गिरफ्तार

लखनऊ, एजेन्सी यूपी परसर रीफरकर के बेटन मरलियन दिखीं। एटोरसर की पीएनएआं को लेकर की गई छापेमारी चर्चा में तो रही है, छात लो-लेवल एटोरसर के छाते में एक और खरलकत दर्द हो गई, अडर में नूरी एटोरसर में 6 रोहिंग्या और 2 बहालियन नरकलीके 8 मरलियन दिखे। इन मरलियन के 4 मरलियन और 4 मरलियन की शामिल है। फरलकत 8 लोगों के पसर से 5 आडर कनर, इगुलरि कनर, आडरगुनर कनर, अडर कनर, 2UNHCR कनर भी मिले हैं। नूरी

एटोरसर ने कनरनुर के इकसलकी बसर स्टेशन के पसर इन आठों को गिरफ्तार किया है, ये सभी बांग्लादेश की सीमा पर कर आरू ये और दिखली से जम्मू भेजे जा रहे थे, निपारन रीफरकर नरकलीके के पसर से कुमरपटर से नूराकली और नूराकली से दिखली का रसल इकलक भी बहालक दुआ है, नूरी एटोरसर ने दर बर बांग्लादेशी नरकलीके और रोहिंग्या को अडर इन से सीमा पर कनरन नूरी दिखली और जम्मू भेजने वाले 2 लोगों को भी गिरफ्तार किया है।

Uttarpradesh

सुकमा में डीआरजी जवानों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़, दो नक्सली ढेर; सर्च ऑपरेशन जारी

सुकमा, एजेन्सी छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले के भेज इकलके में जिल रिजर्व गार्ड (डीआरजी) के जवानों और नक्सलियों के बीच हुई मुठभेड़ में दो नक्सली मारे गए। इकलके में सर्च ऑपरेशन जारी है। पुलिस ने खेबरकर को गवा जानकरी दी। सुकमा पुलिस ने कहा, 'मुठभेड़ में दो नक्सली मारे गए हैं। पुलिस अधिक कनरने रामा खुद पूरा अभियान का नेतृत्व कर रहे हैं। सुकमा के सुरचे सुगुलरि रामां में बहालियन कि इकसल फले एक कई नक्सलियों में सुकमा जिले के इकसल जिले में निपारन कनर में लगे दो रिजर्व टुकों में अडर लजा दो थी। घटना सुकमा जिले का क्षेत्र की है। एरली लनां के मुक्तिकर तीन मकदुने को सुगुलरि बहाया निपारन गवा और पूरलगमजू बने लख गवा।



कृपाल पर भारी पड़े हार्दिक, गुजरात ने लखनऊ को हरारा ऋद्धिमान साहा-शुभमन गिल और मोहित शर्मा चमके

अहमदाबाद, (एजेन्सी) अहमदाबाद में रीफरकर (सारा मई) की पहली खर दो धांए एक मेच में कनरन के तीर पर उठरी। गुजरात टाटनेस के सार्दिक पांडुरा और लखनऊ सुपर जाइंटस के गुजरात पांडुरा अमने-रनरन हुए। दरस मुकलकने में हार्दिक ने बड़े धांए को इकलक बाहर करी। गुजरात ने 56 रन से बड़ी जीत हासिल की। उठने रनेकलीके में अरनी जगल लखनऊ पकरी कर ली है। लखनऊ के कनरन कुगलन पांडुरा ने टीवी जीकनर मेरुवाकी का कनरनर किया। कुगलन का गवा निपारन कनर सार्दिक हुए। गवा निपारन में 20 अरेकल, जवान में लखनऊ की टीम 20 अरेकल में सलर किकेट पर 171 रन ही बचा सकी।



मेयर्स और डिक्कोन ने दो लखनऊ को मजबूत शुरुआत

228 रन के निराल लखन का पीछा करते उठरी लखनऊ की टीम ने लखनऊ सुकमा की कनरने मेयर्स और डिक्कोन ने टीम को मजबूत

शुरुआत दी। दोनों ने पहले किकेट के निर 8.2 अरेकल में 88 रन की बहालरी की। मेयर्स 32 रन पर 48 रन कनरकर आउट हुए। उनोंने अरनी पारि में सलर पीके और टी कनरकर लखनऊ के आउट रनेने के बहर डिक्कोन का तीर पर इटिने करे; दुःखे तीर पर किरिसे बहालियनर ने उनका सलर

नहीं दिया। डिक्कोन 16रन अरेकल में आउट हुए। उनोंने 41 रन पर 70 रन बहाल। डिक्कोन के सलर पीके और तीन कनरकर लखनऊ।

लखनऊ के मथकक्रम हुआ फलक

लखनऊ के मथकक्रम में दरस मेच में खड्डा प्रदर्शन किया। तीरक मथकक्रम में अरनी स्टोडियन पसर और निकोलेसन पसर तीन रन बहालकर आउट हुए। अखिरी अरेकल में इमनेक पसर के तीर पर उठरी अडरगु बंदीने ने बांश प्रमारा हासिल, लखनऊ लखनऊ मेच हासल से निपारन कुकर था। बंदीने ने 11 रन पर 21 रन बहाल। कनरन गुजरात पांडुरा खाला नहीं खाला गुजरात।



अभिनेता नवाजुद्दीन सिद्दीकी और ससुरालियों पर किए केस वापस लंगी आलिया, पत्नी ने इंटरक्राम पर गलतियों की मांगी माफी



मुक्कसरनरनर जनपद के कुगलन निपारकी प्रसिद्ध अभिनेता नवाजुद्दीन सिद्दीकी एवं उनकी पत्नी के बीच खाला आ रल निपारक आर सुलरत सलरका है। पत्नी आलिया सिद्दीकीने ने इंटरक्राम आकअट पर नवाजुद्दीन को संवेभितर एवं पसर पीकट किया है, उरसमें बच्चों के रीफरकर के लिए नवाजुद्दीन एवं सरलरुलियों पर किए केस बहालर लेने की बारा कही है। सारा ही पसर में खुद की गलतियों पर मरुकी बांशंगे हुए नवाजुद्दीन की गलतियों को भी धाक कनरने की बारा कही है। अडर, नवाजुद्दीन के धांए फैसल सिद्दीकीने ने आलिया की पीकट से अरनपेक्षात जगह है। आलिया सिद्दीकी ने दर दिने बच्चों की पसर के लिए दुर्दा में रर रही है। उनोंने अपने इंटरक्राम आकअट पर पीकट कर नवाजुद्दीन को संवेभितर पसर में लिखल है कि वह एक अरके निख है और रीफरकर में अरके निख के रनेमी कर्तरीय निपारनेली। आलिया ने लिखल है कि उनको लिखे बच्चों के लिए है। बच्चों के पीकट पर सुकदुकरपट देकनर उनको किरि खाले हो गई है। रीने नवाजुद्दीन के रीफरकर पर जो केस लिखल है, वह ररकी बहालर लेने गई है। सारा ही पसर में कहा है कि उनोंने नवाजुद्दीन से कौसे अरनपेक्षात मरुकी नहीं बहालर और न ही वह उठरीकी अरनपेक्षात खाली है, लखनऊ उनोंने लिखे का जो पसर है उसे अरेकलकत वह उनको किरि बहालने के टीकर जो उठरर लिखल था, वह उसे चुकनर खाली थी।

